

Date: September 08, 2025

To

| | |
|---|---|
| The Manager – Listing National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Symbol: RAMASTEEL | Department of Corporate Services BSE Limited, Corporate Relationship Dept., P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code: 539309 |
|---|---|


Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement– Notice of 51st Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, September 30, 2025, through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”); and Remote E-Voting.

In pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) dated September 07, 2025, intimating that the 51st Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, September 30, 2025 at 12:30 P.M. IST** through VC/OAVM.

Request you to kindly take the aforesaid information on your record.

For Rama Steel Tubes Limited



Vikas Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

Email: investors@ramasteel.com

Encl. As Above

Tel.: 011- 41251965; **Email:** compliance@nse.org.in

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of Technologies Limited (the 'Company') will be held on Thursday, 10 October 2013 through Video Conferencing ('VC') or Other Means ('OM'), at the discretion of Members at a common venue, in compliance with the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder, the Securities and Exchange Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the Listing Agreement between Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India and the business set out in the Notice convening the meeting.

The Company has already sent the Annual Notice, by electronic mode on 5th September to the Company/Registrar & Share Transfer Agent, giving the exact path where the web-link, for the year 2024-25 are available, sent by post to those who have requested for a physical copy of the Annual Report and Accounts. The same is in writing. The AGM Notice and the AGM Circular are available at (www.digispice.com), National Securities Depository Limited (www.bseindia.com) and National

In compliance with provisions of Section 10 (and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing remote e-voting to vote on the resolutions set forth in the purpose has engaged the services of NSI

A person whose name appears on the Roll maintained by the depositories, as on the date of the AGM, shall be entitled to avail the facilities of remote e-voting as from the date of commencement on **26th September, 2025 at 9:00 a.m.** Thereafter, remote e-voting shall be disabled until the commencement of the AGM. The Members who have not attended the AGM and also attend the Meeting but shall not be eligible to cast their votes by remote e-voting, may cast their votes by remote e-voting, once the vote on a resolution is cast, the

The voting rights of Members shall be in proportion to the number of shares held by them in the Company as on the cut-off date. The voting shall be done through the e-voting system or through the remote e-voting or through the e-voting du

A person, who acquires shares and becomes a Member, is requested to give a written Notice and holds shares as of the cut-off date, to request to evoting@nsdl.co.in or RTA at int@nsdl.co.in in the AGM Notice. The Members holding shares as of the cut-off date, with the Company/RTA, are requested to update their details in the AGM Notice. If any Member forgets his user ID or password, as mentioned in the AGM Notice, he/she can request the RTA to

In case of any query/grievance connected with the questions available at the download section of y 1020 990, contact RTA at 011-26387281 or se evoting@nsdl.co.in or Mr. Sharwan M investor@masserv.com or Company Secre

Date: 6th September, 2025
Place: Noida



RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN : L27201DL1974PLC007114

Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

+ (91)-(11)-43446600 investors@ramasteel.com www.ramasteel.com

NOTICE OF 51ST ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Tuesday, September 30, 2025 at 12:30 P.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of 51st AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ('Act').

In compliance with the applicable provisions of the Act, and Rules made thereunder and read with Rules framed thereunder, and read with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with the circulars issued earlier in this regard (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CFD-PO-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with the circulars issued earlier in this regard (Collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Notice of 51st AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2025 have been sent on September 05, 2025 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circular. Additionally, the Company has also sent letters providing the weblink, including the exact path of Annual Report to those shareholders whose email address is not registered with the Company/DP in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. However, any Member requiring a hard copy of Annual Report may kindly send a request to the Company at investors@ramasteel.com.

The Notice and Annual Report shall also be made available on the Company's website at www.ramasteel.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Company has provided Members the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) on all resolutions set forth in the Notice of the 51st AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM has been provided in the Notice of AGM.

The facility of casting votes will be provided by NSDL. All the Members are informed that:

- i. The business(es) as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.
- ii. The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 23, 2025. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice.
- iii. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i.e. Tuesday, September 23, 2025**, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the **cut-off date i.e. Tuesday, September 23, 2025**, may write an email to evoting@nsdl.com for obtaining login ID and password.
- iv. The remote e-voting commences on **Saturday, September 27, 2025 (9.00 A.M.)** and ends on **Monday, September 29, 2025 (5.00 P.M.)**. During this period, Members may cast their votes electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- v. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the AGM.
- vi. The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM.
- vii. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- viii. M/s Arun Kumar Gupta & Associates, Company Secretaries, New Delhi, has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4866 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address: evoting@nsdl.com or at telephone no. 022- 48667000

For Rama Steel Tubes Limited
Sd/-
(Naresh Kumar Bansal)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Date: 07.09.2025

commence on 27th September, 2025 at 09:00 A.M. and end on 29th September, 2025 at 5.00 P.M. No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The notice of the Annual General Meeting along with Remote e-voting instructions has also been displayed on the website of the Company www.rccements.com and on the website of the Agency www.evoting.nsdl.com. The Members of Company holding shares as on Tuesday, 23rd September, 2025 may cast their vote Electronically through Remote E-voting platform of NSDL at www.evoting.nsdl.com or vote at the General Meeting through the Ballot Form. Members may participate in the General Meeting even after Remote E-voting but shall not be eligible to vote at the meeting. Voting, if exercised will be invalid and the vote caste through Remote E-voting will be considered. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case members have any queries or issues regarding Remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and Remote e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in. Shareholders may contact Registrar & Share Transfer Agent, M/s MAS Services Limited, contact no. 011-26387281-83 or their respective Depositories for registration/update of their email IDs and other matters.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2025 may obtain the user id and password by sending the request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote evoting then existing user id and password can be used for casting vote.

Members/Promoters holding shares in physical form are requested to get their shares Dematerialised pursuant to SEBI Circular No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 08th June, 2018. Members/Promoters who hold shares in physical mode and have not registered / updated their email addresses/PAN/KYC with the Company, are requested to register / update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms, with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company MAS Services Limited ("RTA"). Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD- 1/P/CIR/2023/37 dated March, 16, 2023, the Company has sent letters to the shareholders holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. Further the shareholders can also access the relevant Forms on Company's website at www.rccements.com. Members holding shares in demat form are requested to update their email address/PAN/KYC details with their respective DPs.

Further, in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a Special Window has been opened for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of 1st April 2019 and rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process or otherwise. The re-lodgement window shall remain open for a period of six months i.e. from 7th July, 2025 till 6th January, 2026. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests. Shareholders who have missed the earlier deadline of 31st March 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agents ('RTA'), i.e. M/s. MAS Services Limited.

Further, in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a Special Window has been opened for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of 1st April 2019 and rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process or otherwise. The re-lodgement window shall remain open for a period of six months i.e. from 7th July, 2025 till 6th January, 2026.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests. Shareholders who have missed the earlier deadline of 31st March 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agents ('RTA'), i.e. M/s. MAS Services Limited. For RCC Cements Limited

Place: New Delhi
Date: 06th September, 2025



RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN : L27261DL1974PLC007114

Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

+ (91)-(11)-43446600 investors@ramasteel.com www.ramasteel.com

51वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस और ई-वोटिंग की जानकारी

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("OAVM") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 51वीं एजीएम के नोटिस में बताए गए कार्य निपटारे जाएंगे। VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, कंपनी और सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") सचिवलर संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 और इस संबंध में पहले जारी सचिवलर (संक्षेप में "एमसीए सचिवलर") और समस्त वित्तीय वर्ष के लिए 51वीं एजीएम का नोटिस और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, 5 सितंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("DP") के साथ उपरोक्त MCA और "सेबी सचिवलर" के अनुसार पंजीकृत थे। इसके अलावा, कंपनी ने उन शेयरहोल्डर्स को भी पत्र भेजा है, जिनका ईमेल एड्रेस सेबी (LODR) नियम, 2015 के नियम 36(1)(इ) के अनुसार कंपनी/DP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। पत्र में वार्षिक रिपोर्ट का वेबलिनक और उसका पूरा पता दिया गया है। हालांकि, अगर किसी सदस्य को वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी चाहिए, तो वह investors@ramasteel.com पर कंपनी को अनुरोध भेज सकता है।

यह नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ramasteel.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों यानी BSE लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। कंपनी अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम के नियम 44, ईस्टीमेटेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सेक्रेटरीयल स्टैंडर्ड-2 और एमसीए सचिवलर के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने सदस्यों को 51वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने की सुविधा दी है। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के तरीके और निर्देशों की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम नोटिस में दी गई है।

वोट डालने की सुविधा NSDL द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- एजीएम नोटिस में दिए गए कार्य ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा किए जाएंगे।
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक है। कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य कोई भी व्यक्ति एजीएम नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने का पात्र होगा।
- केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए बनेफिशियल ओनर्स के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा। यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस जारी होने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर ईमेल कर सकता है।

- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 27 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे सकते हैं। इसके बाद, वोटिंग के लिए NSDL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट दे देता है, तो वह बाद में उसे बदल नहीं सकेगा।
- इस अवधि के दौरान, चाहे शेयर फिजिकल रूप में हों या डिमैटरीयलाइज्ड रूप में, सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दे सकते हैं।
- एजीएम में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जो सदस्य एजीएम में भाग लेंगे, लेकिन जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में वोट देने के पात्र होंगे।
- जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट कर चुके हैं, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट नहीं दे सकेंगे।

- कंपनी ने ई-वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आंचने के लिए मेसर्स अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली को स्कूटीनाइजर नियुक्त किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में छपी ई-वोटिंग संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेशन में शेयरहोल्डर्स के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरहोल्डर्स के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या पल्लवी म्हात्रे, सीनियर मैनेजर, नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, 3तक प्लोर, नामन चौब, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400051 को निर्दिष्ट ईमेल पता evoting@nsdl.com पर या टेलीफोन नंबर 022-48867000 पर अनुरोध भेज सकते हैं।

रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
(नरेश कुमार बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.09.2025

DIGISPACE

डिजिटल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: जेए-122, पहली मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए, जमोला, नई दिल्ली-110025

सीआईएन: L72900DL1986PLC330369

टेलीफोन: 011-41251965, ईमेल: complianceofficer@digispice.com; वेबसाइट: www.digispice.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना - 29 सितंबर, 2025

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डिजिटल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय प्रकट द्वारा जारी लागू परिपत्र(ओं) एवं अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के द्वारा, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 37वीं एजीएम (एजीएम की सूचना) की आहूत सूचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित किया जाएगा।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट) एवं एजीएम सूचना 5 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उन सदस्यों को प्रेषित की है जिनका ई-मेल पता कम्पनी/ रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर

Indjerjit Singh S/o Pritam Singh R/o 325, Sultanwind Road, Near Toot Sahib Gurudwara, Near Gill Chakki, Namdev Colony, Amritsar ...complainant

Versus

Rataneshwar Dass Vaishanav
U/s 138 Negotiable Instruments Act
Notice To: Rataneshwar Dass Vaishanav
S/o Shiv Ram Dass Vaishanav R/o
Nayakwarhi Raj Nagar, Tehsil And distt
Rajasmand Rajasthan

Whereas complaint has been made before that the above said accused has committed (or) suspected to have committed the offence punishable under section 138 of negotiable instrument act and it has been returned to warrant of arrest thereupon issued that the said accused cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant) Proclamation is hereby made that the said accused is required to appear before this court (or before me) to answer the said complaint on 23.09.2025 for details login to:

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&dist=amritsar

JMIC Amritsar

Criminal Courts, Amritsar

In The Court Of Amandeep Singh
Ghuman Judicial Magistrate First Class,
Amritsar

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on
http://ecourts.gov.in

NACT/ 3349/2023

M/s KT Shaws Enterprises
Vs.

M/s Maa Tara Textiles

police station/FIR no. ranjit avenue/0

Next Date: 06-10-2025

138 Of Negotiable Instruments Act

Proclamation Requiring The Appearance Of A

Person Accused Details Of Office:-

Publication Issued To: 1. M/s Maa Tara

Textiles Having Its Office At Majid road

rajdhani market, agartala, tripura, india

through its prop. Signatory Namely

Pankaj Chowdhury

2. Pankaj Chowdhury Prop. Partner/auth.

Signatory Of M/s Maa Tara Textiles

Having Its Office At Majid Road,

Rajdhani Market, Agartala Tripura, India

Whereas complaint/case has been made before

that r/o has committed (or is suspected to have

been returned to a warrant of arrest thereupon

issued that the said cannot be found, and whereas

it has been shown to my satisfaction that the said

has absconded (or is concealing himself/herself to

avoid the service of the said warrant);

proclamation is hereby made that the said is

required to appear before this court (or before me

) on 06-10-2025 to answer the said complaint/

case. dated this day

JMIC Amritsar

सार्वजनिक सूचना

केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार, कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से

दूसरे राज्य में स्थापित करने के लिए विज्ञापन

सोमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13

और अध्याय (3) और सोमित देयता भागीदारी (एलएलपी

का नियमन) नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

और

के के बिल्डवर्थ एलएलपी

(एलएलपीआईएन: एएओ-3185)

जिसका पंजीकृत कार्यालय यूजीएफ 39, पंजाबी

मोहल्ला, जमरुदपुर, नई दिल्ली-110048 में स्थित है,

के मामले में, आवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि के के

बिल्डवर्थ एलएलपी, सोमित देयता भागीदारी अधिनियम,

2008 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा को एक

आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत

कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से

"हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने की अनुमति

मांगी गई है, अर्थात् यूजीएफ, 39, पंजाबी मोहल्ला,

जमरुदपुर, नई दिल्ली - 110048 से एओ/05,

5वीं मंजिल, मालिवू शांतिगार्डन आर्कड, मालिवू टाउन,

सेक्टर-47, गुडगांव-122018, हरियाणा।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय

के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है,

वह निवेद्यत शिक्केयत अप्रत्यक्ष मन्त्रक एमसीए-21 पोर्टल

(www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हितों

की प्रकृति और विषय को आधार बनाते हुए एक हलफनामे द्वारा

समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज

एनसीटी, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल,

आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-

110019 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21

(इक्कीस) दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा वितरित या

भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी को उसके